



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

No. 55]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2007/माघ 19, 1928

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 70(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह “क” एवं समूह “ख” पद) भर्ती नियम, 1964 एवं इस संबंध में किये गये सभी संशोधन में जहाँ तक उनका संबंध आचार्य कार्बनिक रसायन, सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) के पदों से है, को अधिक्रान्त करते हुए, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में आचार्य कार्बनिक रसायन, सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, आचार्य कार्बनिक रसायन, सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) भर्ती नियम 2007 है
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (2) पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।
- (3) भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हतायें आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हतायें, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट है।

(4) निरर्हता; वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आचार्य कार्बनिक रसायन	01*(2007) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	₹ 14300-400-18300

चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(5)	(6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयुसीमा

(7)

50 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पणी:— आयुसीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(8)

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में विशेषज्ञता सहित रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) कार्बनिक रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक /शिक्षण का बारह वर्ष का अनुभव।

या

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य।
- (ii) कार्बनिक रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक /शिक्षण का सात वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) कार्बोहाइड्रेट रसायन में अनुसंधान का अनुभव या
- (ii) अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।

टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता : हों अधिसूचना की तारीख को सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले विद्यमान पदाधारियों को इस उपबंध से छूट दी जायेगी।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ष।	संयुक्त पद्धति संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) और प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(12)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति:

1. केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो,
अथवा

(ii) 12000-16500 ₹ या समतुल्य वेतनमान के पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो या

(iii) 10000-15200 ₹ या समतुल्य वेतनमान के पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की हो और

(ख) स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1.:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.:- 10,000-15,200 ₹ के वेतन मान में ऐसे विभागीय सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिके संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।	प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। —अध्यक्ष	
(2) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। —सदस्य	
(3) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक आचार्य कार्बनिक रसायन	01*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित अननुसचिवीय	रू 10000-325- 15200

(5)	(6)
लागू नहीं होता	हो परन्तु यह फायदा तब अनुज्ञेय नहीं होगा जब व्यक्ति सरकारी सेवा में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद आया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 उन कर्मचारियों के लिये लागू होता है जो सरकारी सेवा में दिनांक 31.12.2003 तक आ चुके हैं।

(7)
50 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1:—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पोंच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— आयुसीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अम्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अम्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

(8)

आवश्यक:

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में विशेषज्ञता सहित रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।
2. कार्बनिक रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक / शिक्षण का सात वर्ष का अनुभव।

या

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य।
2. कार्बनिक रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक / शिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) कार्बोहाइड्रेट रसायन में अनुसंधान का अनुभव या
- (ii) अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव।

टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)
<p>आयु : नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हता : हों</p> <p>अधिसूचना की तारीख को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले विद्यमान पदाधारियों को इस संबंध में छूट दी जायेगी।</p>	<p>सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए एक वर्ष।</p>	<p>संयुक्त पद्धति</p> <p>संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) और प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p>

(12)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति:

1. केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो,
अथवा

(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में 8000-13500 रु० के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है या

(ख) स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- 8000-13500 रु० के वेतन मान में ऐसे विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिके संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

- (1) संयुक्त सचिव, —अध्यक्ष
उपमोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- (2) निदेशक/उपसचिव, —सदस्य
उपमोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- (3) निदेशक, —सदस्य
राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर

(14)

प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन)	01*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित अननुसचिवीय	रू० 8000-275-13500

(5)	(6)
लागू नहीं होता	नहीं

(7)
<p>35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।)</p> <p>टिप्पणी 1:— आयुसीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।</p>

(8)
<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य। 2. कार्बनिक रसायन में डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यवहारिक /शिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव। <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में डॉक्टरेट या समतुल्य।</p> <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्बोहाइड्रेट रसायन में अनुसंधान का अनुभव या 2. अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव। <p>टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(9)	(10)	(11)
<p>आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता : हों अधिसूचना की तारीख को अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले विद्यमान पदाधारियों को शैक्षिक अर्हता के संबंध में छूट दी जायेगी।</p>	<p>सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति एवं पदोन्नतिधारी के लिए एक वर्ष।</p>	<p>संयुक्त पद्धति संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) और प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p>

(12)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति: केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में 5500-9000 ₹ के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है या (iii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में 4500-7000 ₹ के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 13 वर्ष सेवा की है या और (ख) स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1:- 4500-7000 ₹ के वेतन मान में ऐसे विभागीय अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में 13 वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।</p> <p>टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(13)	(14)
<p>समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिके संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, —अध्यक्ष उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।</p> <p>(2) निदेशक/उपसचिव, —सदस्य उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।</p> <p>(3) निदेशक, —सदस्य राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. ए-12018/1/2003-एस ए]

हर्ष मालवीया, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 1036 दिनांक 13 जुलाई, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती द्वारा संशोधित किए गए थे:

1.	सा० का० नि०	1150	तारीख	06	अगस्त	1964.
2.	सा० का० नि०	1364	तारीख	15	सितम्बर	1964.
3.	सा० का० नि०	1336	तारीख	23	सितम्बर	1964.
4.	सा० का० नि०	179	तारीख	21	जनवरी	1965.
5.	सा० का० नि०	306	तारीख	20	फरवरी	1965.
6.	सा० का० नि०	1279	तारीख	23	अगस्त	1965.
7.	सा० का० नि०	233	तारीख	04	फरवरी	1966.
8.	सा० का० नि०	234	तारीख	04	फरवरी	1966.
9.	सा० का० नि०	899	तारीख	03	जून	1966.
10.	सा० का० नि०	1745	तारीख	05	नवम्बर	1966.
11.	सा० का० नि०	1805	तारीख	16	नवम्बर	1966.
12.	सा० का० नि०	1140	तारीख	15	जुलाई	1967.
13.	सा० का० नि०	278	तारीख	10	फरवरी	1971.
14.	सा० का० नि०	640	तारीख	13	अप्रैल	1971.
15.	सा० का० नि०	925	तारीख	21	मई	1971.
16.	सा० का० नि०	1612	तारीख	07	दिसम्बर	1971.
17.	सा० का० नि०	85	तारीख	29	दिसम्बर	1975.
18.	सा० का० नि०	1755	तारीख	24	नवम्बर	1976.
19.	सा० का० नि०	79	तारीख	16	दिसम्बर	1976.
20.	सा० का० नि०	339	तारीख	25	फरवरी	1977.
21.	सा० का० नि०	1729	तारीख	14	दिसम्बर	1977.
22.	सा० का० नि०	523	तारीख	30	मार्च	1978.
23.	सा० का० नि०	566	तारीख	17	अप्रैल	1978.
24.	सा० का० नि०	567	तारीख	17	अप्रैल	1978.
25.	सा० का० नि०	1340	तारीख	21	अक्टूबर	1978.
26.	सा० का० नि०	149	तारीख	05	जनवरी	1979.
27.	सा० का० नि०	277	तारीख	05	फरवरी	1979.
28.	सा० का० नि०	278	तारीख	05	फरवरी	1978.
29.	सा० का० नि०	1472	तारीख	23	नवम्बर	1979.
30.	सा० का० नि०	389	तारीख	21	मार्च	1980.
31.	सा० का० नि०	390	तारीख	21	मार्च	1980.
32.	सा० का० नि०	1274	तारीख	26	नवम्बर	1980.

33.	सा0 का0 नि0	445	तारीख	20	अप्रैल	1981.
34.	सा0 का0 नि0	838	तारीख	25	अगस्त	1981.
35.	सा0 का0 नि0	969	तारीख	12	अक्टूबर	1981.
36.	सा0 का0 नि0	628	तारीख	01	जुलाई	1982.
37.	सा0 का0 नि0	279	तारीख	14	मार्च	1983.
38.	सा0 का0 नि0	524	तारीख	01	जुलाई	1983.
39.	सा0 का0 नि0	855	तारीख	05	नवम्बर	1983.
40.	सा0 का0 नि0	875	तारीख	08	नवम्बर	1983.
41.	सा0 का0 नि0	232	तारीख	18	फरवरी	1984.
42.	सा0 का0 नि0	489	तारीख	21	अप्रैल	1984.
43.	सा0 का0 नि0	825	तारीख	20	जुलाई	1984.
44.	सा0 का0 नि0	3	तारीख	20	नवम्बर	1984.
45.	सा0 का0 नि0	145	तारीख	22	जनवरी	1985.
46.	सा0 का0 नि0	65	तारीख	09	जनवरी	1986.
47.	सा0 का0 नि0	447	तारीख	22	मई	1987.
48.	सा0 का0 नि0	717	तारीख	16	सितम्बर	1987.
49.	सा0 का0 नि0	807	तारीख	14	अक्टूबर	1987.
50.	सा0 का0 नि0	152	तारीख	09	जनवरी	1988.
51.	सा0 का0 नि0	3	तारीख	22	दिसम्बर	1988.
52.	सा0 का0 नि0	741	तारीख	19	सितम्बर	1989.
53.	सा0 का0 नि0	288	तारीख	17	अप्रैल	1990.
54.	सा0 का0 नि0	200	तारीख	22	अप्रैल	1992.
55.	सा0 का0 नि0	623	तारीख	2	दिसम्बर	1993.
56.	सा0 का0 नि0	436	तारीख	08	अगस्त	1994.
57.	सा0 का0 नि0	648	तारीख	25	अक्टूबर	1994.
58.	सा0 का0 नि0	560	तारीख	25	अक्टूबर	1994.
59.	सा0 का0 नि0	561	तारीख	25	अक्टूबर	1994.
60.	सा0 का0 नि0	604	तारीख	17	नवम्बर	1994.
61.	सा0 का0 नि0	6	तारीख	21	दिसम्बर	1994.
62.	सा0 का0 नि0	66	तारीख	30	दिसम्बर	1994.
63.	सा0 का0 नि0	67	तारीख	30	जनवरी	1994.
64.	सा0 का0 नि0	58	तारीख	24	जनवरी	1995.
65.	सा0 का0 नि0	444	तारीख	15	सितम्बर	1995.
66.	सा0 का0 नि0	578	तारीख	14	दिसम्बर	1994.
67.	सा0 का0 नि0	184	तारीख	02	अप्रैल	1996.
68.	सा0 का0 नि0	303	तारीख	01	जुलाई	1996.
69.	सा0 का0 नि0	337	तारीख	22	जुलाई	1996.
70.	सा0 का0 नि0	445	तारीख	30	सितम्बर	1996.
71.	सा0 का0 नि0	515	तारीख	06	नवम्बर	1996.
72.	सा0 का0 नि0	584	तारीख	11	दिसम्बर	1996.
73.	सा0 का0 नि0	138	तारीख	25	जून	1998.
74.	सा0 का0 नि0	205	तारीख	15	अक्टूबर	1998.
75.	सा0 का0 नि0	635	तारीख	30	अगस्त	2001.
76.	सा0 का0 नि0	79	तारीख	04	फरवरी	2002.
77.	सा0 का0 नि0	404	तारीख	03	जून	2002.
78.	सा0 का0 नि0	683	तारीख	25	अगस्त	2003.
79.	सा0 का0 नि0	209	तारीख	10	मार्च	2003.
80.	सा0 का0 नि0	234	तारीख	30	मई	2003.
81.	सा0 का0 नि0	574	तारीख	08	सितम्बर	2004.
82.	सा0 का0 नि0	407	तारीख	14	जून	2005.
83.	सा0 का0 नि0	722	तारीख	14	दिसम्बर	2005.
84.	सा0 का0 नि0	326	तारीख	26	मई	2006.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2007

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of National Sugar Institute, Kanpur (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1964, and all amendments thereto, in so far as they relate to the posts of Professor of Organic Chemistry, Assistant Professor of Organic Chemistry and Junior Scientific Officer(Organic Chemistry), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor of Organic Chemistry, Assistant Professor of Organic Chemistry and Junior Scientific Officer(Organic Chemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur, under the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor of Organic Chemistry, Assistant Professor of Organic Chemistry and Junior Scientific Officer(Organic Chemistry) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.** - The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with another person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Professor of Organic Chemistry.	01*(2007) * Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300-400-18300.

Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension Rules), 1972.
(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)	(8)
<p>Not exceeding 50 years. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the central government.)</p> <p>Note :- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District of Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p><u>Essential:</u></p> <p>(i) Post Graduate degree in Chemistry with specialisation in Organic Chemistry from a recognised University or equivalent; (ii) Twelve years' research/practical/teaching experience at degree level in Organic Chemistry. OR (i) Doctorate in Organic Chemistry from a recognised University or equivalent; (ii) Seven years' research/practical and teaching experience at degree level in Organic Chemistry.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(i) Research experience in Carbohydrate Chemistry; or (ii) Experience of guiding research work;</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable for reasons to be recorded at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public service Commission, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(9)	(10)
<p>Age: No. Educational qualifications: Yes. However, these educational qualifications will not apply to the incumbent holding the post of Assistant Professor of Organic Chemistry as on the date of notification of these rules.</p>	One year for direct recruits.

Method of recruitment: whether by promotion or deputation/absorption or direct recruitment and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.
(11)	(12)
Composite method: Deputation (including short-term contract) plus promotion, failing which by direct recruitment	<p>Deputation (including short-term contract) plus promotion: Officers of the Central State/Union Territory Governments/Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory organisations: -</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs.12000-16500 or equivalent; or (iii) with ten years' regular service in posts in the scale of Rs.10000-15200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column (8).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Departmental Assistant Professor of Organic Chemistry in the scale of Rs 10000-15200 with ten years, regular service in the grade shall also be considered along with deputationists. In case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary, -- Chairman Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Joint Secretary -- Member. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Director, -- Member. National Sugar Institute, Kanpur. 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Professor of Organic Chemistry.	01*(2007) * Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.10000-325-15200.

(5)	(6)
Not applicable.	Yes. Provided that this benefit shall not be admissible to the persons who joined government service on or after 1 st January, 2004. Central Civil Service(Pension) Rules, 1972 were applicable to the employees who entered into government service upto 31 st December, 2003.

(7)	(8)
<p>Not exceeding 50 years.</p> <p>Note 1 :- Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions issued by the central government in this regard, from time to time.</p> <p>Note 2:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District of Pangi sub- division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p><u>Essential:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate degree in Chemistry with specialisation in Organic Chemistry from a recognised University /Institute or equivalent; 2. Seven years' research and teaching experience at degree level in Organic Chemistry. <p>OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doctorate in Organic Chemistry from a recognised University or equivalent; 2. Three years' research and teaching experience at degree level in Organic Chemistry. <p><u>Desirable:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Research experience in Carbohydrate Chemistry; or (ii) Experience of guiding research work. <p>Note 1: Qualifications are relaxable for reasons to be recorded at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission. In case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient numbers of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>

(9)	(10)
<p>Age: No.</p> <p>Educational qualifications: Yes.</p> <p>However, these educational qualifications shall not apply to the incumbents holding the post of Junior Scientific Officer(Organic Chemistry) as on the date of notification of these rules.</p>	One year for direct recruits.

(11)	(12)
<p><i>Composite Method:</i> <i>Deputation (including short-term contract) plus promotion, failing which by direct recruitment.</i></p>	<p><i>Deputation (including short-term contract) plus promotion:</i></p> <p><i>Officers of the Central/State/Union Territory Governments/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous/Statutory organisations: -</i></p> <p><i>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or</i> <i>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and</i></p> <p><i>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 8.</i></p> <p><i>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</i></p> <p><i>Note 2: The Departmental Junior Scientific Officers (Organic Chemistry) in the pay scale of Rs. 8000-13500 with five years, regular service in the grade shall also be considered along with deputationist. In case, he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</i></p> <p><i>(Period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</i></p>

(13)	(14)
<p><i>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</i></p> <p><i>1. Joint Secretary, — Chairman</i> <i>Ministry of Consumer Affairs,</i> <i>Food and Public Distribution.</i></p> <p><i>2. Director/Deputy Secretary — Member.</i> <i>Ministry of Consumer Affairs,</i> <i>Food and Public Distribution.</i></p> <p><i>3. Director, — Member.</i> <i>National Sugar Institute, Kanpur.</i></p>	<p><i>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</i></p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Junior Scientific Officer (Organic Chemistry)	01*(2007) * Subject to variation dependent upon work- load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Rs. 8000-275-13500.

(5)	(6)
Not applicable.	No

(7)	(8)
<p>Not exceeding 35 years.</p> <p>(Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the central government)</p> <p>Note 1:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District of Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate degree in Chemistry with specialisation in Organic Chemistry from a recognised University/Institute or equivalent. 2. Three years' research and teaching experience at degree level, in Organic Chemistry. <p>OR</p> <p>Doctorate in Organic Chemistry, from a recognised University.</p> <p>Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Research experience in Carbohydrate Chemistry; or 2. Experience of guiding research work; <p>Note 1: Qualifications are relaxable for reasons to be recorded at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission. In case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>

(9)	(10)
<p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications : Yes</p> <p>However, these educational qualifications will not apply to the incumbent holding the post of Research Assistant (Organic Chemistry) on the date of notification of these rules.</p>	<p>One year for direct recruits and promotees.</p>

(11)	(12)
<p>Composite Method: Deputation (including short term contract) plus promotion, failing which by direct recruitment.</p>	<p>Deputation (including short term contract) plus promotion:- Officers of the Central/State Government/Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay Rs.5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with thirteen years' in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay Rs.4500-7000, or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note 1: The Departmental Research Assistant(Organic Chemistry) in the pay scale of Rs.4500-7000 with thirteen years' regular service in the grade will also be considered along with deputationists. In case, he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation(including short term contract), including the period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p>

(13)	(14)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-</p> <p>1. Joint Secretary, -- Chairman Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.</p> <p>2. Director/Deputy Secretary, -- Member. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.</p> <p>3. Director, -- Member. National Sugar Institute, Kanpur.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

[F.No. A-12018/1/2003-SA]

HARSH MALVIYA, Under Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1036, dated the 13th July, 1964 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 1150 dated the 6th August, 1964
2. G.S.R. 1364 dated the 15th September, 1964
3. G.S.R. 1436 dated the 23rd September, 1964
4. G.S.R. 179 dated the 21st January, 1965
5. G.S.R. 306 dated the 20th February, 1965
6. G.S.R. 1279 dated the 23rd August, 1965
7. G.S.R. 233 dated the 4th February, 1966
8. G.S.R. 234 dated the 4th February, 1966
9. G.S.R. 899 dated the 3rd June, 1966
10. G.S.R. 1745 dated the 5th November, 1966
11. G.S.R. 1805 dated the 16th November, 1966
12. G.S.R. 1140 dated the 15th July, 1967
13. G.S.R. 278 dated the 10th February, 1971
14. G.S.R. 640 dated the 13th April, 1971
15. G.S.R. 925 dated the 21st May, 1971
16. G.S.R. 1612 dated the 7th September, 1971
17. G.S.R. 85 dated the 29th December, 1975
18. G.S.R. 1755 dated the 24th November, 1976
19. G.S.R. 79 dated the 16th December, 1976
20. G.S.R. 339 dated the 25th February, 1977
21. G.S.R. 1729 dated the 14th December, 1977
22. G.S.R. 523 dated the 30th March, 1978
23. G.S.R. 566 dated the 17th April, 1978
24. G.S.R. 567 dated the 17th April 1978
25. G.S.R. 1340 dated the 21st October, 1978
26. G.S.R. 149 dated the 5th January, 1979
27. G.S.R. 277 dated the 5th February, 1979
28. G.S.R. 278 dated the 5th February, 1979
29. G.S.R. 1472 dated the 23rd November, 1979
30. G.S.R. 389 dated the 21st March, 1980
31. G.S.R. 390 dated the 21st March, 1980
32. G.S.R. 1274 dated the 26th November, 1980
33. G.S.R. 445 dated the 20th April, 1981
34. G.S.R. 838 dated the 25th August, 1981
35. G.S.R. 969 dated the 12th October, 1981
36. G.S.R. 628 dated the 1st July, 1982
37. G.S.R. 279 dated the 14th March, 1983
38. G.S.R. 524 dated the 1st July, 1983
39. G.S.R. 855 dated the 5th November, 1983
40. G.S.R. 875 dated the 8th November, 1983
41. G.S.R. 232 dated the 18th February, 1984
42. G.S.R. 487 dated the 21st April, 1984
43. G.S.R. 825 dated the 20th July, 1984
44. G.S.R. 3 dated 20th November, 1984
45. G.S.R. 145 dated the 22nd January, 1985
46. G.S.R. 65 dated the 9th January, 1986
47. G.S.R. 447 dated the 22nd May, 1987
48. G.S.R. 717 dated the 16th September, 1987
49. G.S.R. 807 dated the 14th October, 1987
50. G.S.R. 152 dated the 9th January, 1988
51. G.S.R. 3 dated the 22nd December, 1988
52. G.S.R. 741 dated the 19th September, 1989
53. G.S.R. 288 dated the 17th April, 1990
54. G.S.R. 200 dated the 22nd April, 1992
55. G.S.R. 623 dated the 2nd December, 1993
56. G.S.R. 436 dated the 8th August, 1994
57. G.S.R. 548 dated the 25th October, 1994
58. G.S.R. 560 dated the 25th October, 1994
59. G.S.R. 561 dated the 25th October, 1994
60. G.S.R. 604 dated the 17th November, 1994
61. G.S.R. 6 dated the 21st December, 1994
62. G.S.R. 66 dated the 30th December, 1994
63. G.S.R. 67 dated the 30th December, 1994
64. G.S.R. 58 dated the 24th January, 1995
65. G.S.R. 444 dated the 15th September, 1995
66. G.S.R. 578 dated the 14th December, 1995
67. G.S.R. 184 dated the 2nd April, 1996
68. G.S.R. 303 dated the 1st July, 1996
69. G.S.R. 337 dated the 22nd July, 1996
70. G.S.R. 445 dated the 30th September, 1996
71. G.S.R. 515 dated the 6th November, 1996
72. G.S.R. 584 dated the 11th December, 1996
73. G.S.R. 138 dated the 25th June, 1998
74. G.S.R. 205 dated the 15th October, 1998
75. G.S.R. 635 dated the 30th August, 2001
76. G.S.R. 79 dated the 4th February, 2002
77. G.S.R. 404 dated the 3rd June, 2002
78. G.S.R. 683 dated the 25th August, 2003
79. G.S.R. 209 (E) dated the 10th March, 2003
80. G.S.R. 234 dated 30th May, 2003
81. G.S.R. 574(E) dated 8th September, 2004
82. G.S.R. 407(E) dated 14th June, 2005
83. G.S.R. 722(E) dated 14th December, 2005
84. G.S.R. 326(E) dated 26th May, 2006